

पानी

होशपूर्वक उपयोग करें। बर्बाद मत करें

लिस्बन सार्वजनिक नेटवर्क द्वारा वितरित पानी उत्कृष्ट गुणवत्ता का है और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी भी और सभी कचरे से बचा जाना चाहिए, जो एक भी उत्पन्न करता है उच्च बिल, घरेलू खर्चों पर अनावश्यक रूप से भार डालना।

लगभग 60% घरेलू पानी की खपत का उपयोग दैनिक स्वच्छता के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि पानी हम स्वच्छता पर खर्च सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, और की आदतों और व्यवहार बचत जो फर्क करती है।

घर पर पानी बचाने के उपाय

- नल को कभी भी खुला न छोड़ें क्योंकि लीटर पानी बर्बाद कर सकता है 12 मिनट के लिए खुला नल 1;
- अपने हाथों को साबुन लगाते या शेव करते समय नल बंद कर दें;
- अपने दांतों को ब्रश करते समय नल बंद कर दें और आप दिन में लीटर पानी की खपत कम 30 से 10 कर देंगे;
- बाथ को मिनट के छोटे शावर से बदलें। भिगोने वाले स्नान और अतिरंजित वर्षा 5 एक घर की औसत खपत के कचरे का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं और सैकड़ों की खपत करते हैं लीटर पानी;
- शावर के पानी के गर्म होने का इंतजार करते समय, पानी को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर का उपयोग करें और उसका पुनर्उपयोग करें : फिर टॉयलेट फ्लशिंग या सफाई के लिए;
- शौचालय के नीचे कचरा न फेंके क्योंकि शौचालय के प्रत्येक फ्लश में लगभग लीटर पानी बर्बाद होता 10 है;
- नलों और फ्लशिंग से छोटे पानी के रिसाव पर नजर रखें। पानी लीकेज होने पर संपर्क करें तुरंत एक प्लम्बर;
- बर्तन और कपड़े धोते समय, पूरे लोड वाली मशीनों का उपयोग करें और ईको कार्यक्रमों को चुनें;
- चालान पर इंगित अवधि के भीतर नियमित रूप से मीटर रीडिंग की रिपोर्ट करें, क्योंकि इससे अनुमान लगाने से बचा जा सकता है खपत और बेहतर नियंत्रण पानी की लागत।

किचन में पानी बचाने के टिप्स

- यदि आप हाथ से बर्तन धोना चुनते हैं, तो नल को बहते पानी से न चलाएं। सिंक और का प्रयोग करें डिटर्जेंट लगाने से पहले बर्तन भिगोएँ;
- सब्जियों और फलों को धोने से लेकर पौधों को पानी देने या फर्श धोने के पानी का पुनः उपयोग करें;
- सब्जी, चावल या पास्ता पकाने से पानी न फेंके। ये पानी पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट और स्वादिष्ट भी होते हैं उन्हें अन्य उपयोगों में शामिल किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, सॉस और फिलिंग्स में;
- सूप बनाते समय सब्जियों को बहुत छोटा-छोटा काटें और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से पानी से ढक कर रखें, बाहर फेंकने से बचें खाना पकाने के बाद अतिरिक्त शोरबा; पानी बचाने का दूसरा तरीका भोजन को बर्बाद न करना है;
- भोजन के सभी अवयवों को उनके उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए बचे हुए का पुनः उपयोग करें रचनात्मक तरीका।

आउटडोर जल बचत युक्तियाँ

- यदि आपके पास एक बगीचा है, तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए एक संग्राहक कंटेनर का उपयोग करें;
- पौधों की प्रजातियाँ जो उस क्षेत्र की मूल निवासी हैं, जो स्थानीय जलवायु और आवधिकता के लिए अधिक अनुकूलित हैं। बारिश। आप उन पौधों को भी चुन सकते हैं जो कम पानी की खपत करते हैं और इस प्रकार बढ़ते खर्च से बचते हैं पानी देना;
- याद रखें कि जब वर्षा अपर्याप्त होती है तो बगीचों को पानी देने का उद्देश्य पौधों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। नली से पानी देने में 18 लीटर प्रति मिनट खर्च हो सकता है। इसे कुशलतापूर्वक करने के लिए, घंटों का लाभ उठाएं कम गर्मी, सुबह 8 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद, और कम वाष्पीकरण नुकसान होगा;
- कार धोने के लिए, अधिमानतः पारिस्थितिक सेवा स्टेशनों का उपयोग करें, जिनमें टाइमर हैं पानी का उपयोग करते समय, और इसे केवल तभी धोएं जब बिल्कुल आवश्यक हो। यदि आपको नली से धोना है, डिटर्जेंट लगाते समय पानी बहने से बचने के लिए बाल्टी और ब्रश चुनें।